

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority, New Delhi

केवल अखबार के खर्चों की अदायगी के लिए मुआवजे की मांग
Claim for Reimbursement of Newspaper Expenses (Only)

तीन महीने के लिए केवल एक ही नकदी रसीद/बिल
Paste Single Cash Memo/Bill for Three Months

नाम / Name :

पदनाम / Surname :

अवधि जिसके लिए /
Period for which the :

मुआवजे की अदायगी की मांग की गई/
Reimbursement is claimed :

खरीदे गए अखबार /
Newspaper Purchased :

पूर्तिकर्ता का नाम / Name of Supplier :

अदा की गई राशि / Amount Paid :

(पुराने अखबारों की कीमत के स्थान पर
कुल राशि में से 15% की कटौती के बाद)
(After a deduction of 15% of total
amount in lieu of cost old newspapers) :

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त खर्च.....मेरे द्वारा व्यय किये गए हैं और मैंने उपर्युक्त
अवधि के मुआवजे की अदायगी के लिए मांग नहीं की है।

Certified that the above expenses have been _____ incurred by me and I have not claimed the
reimbursement for the aforesaid period. `

(अधिकारी के हस्ताक्षर)
(Signature of the Officer)

पदनाम / Designation.....
फोन नं:/ Phone No.....